

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिवेशक महर द्वितीय लघनक्र क्रम 2020228035897

आवेदन संख्या : 202000821061581

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2020-12-01 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अनुराधा शुक्ला

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की अनुराशि 3630000 / 1800000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 36300

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3. विरोध या तलाश शुल्क

4. मुहताब के अधिप्रमार्णीकरण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 में 6 तक का योग 36360

शुल्क असूल करने का दिनांक 2020-12-01 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2020-12-01 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Annex - 8

अनुराधा शुक्ला

11/12/2020



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH

38AE 120653

एन जेएल टोप नमब सी..... 713234  
के सीए प्रोडुस रिज नमब

संख्या

✓  
S/12/2020

12980


04/2/2020

श्रीमान् श्री ०१ ०१ ०१ ०१

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....



2 M388/2  
INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No. : IN-UP14Q16566654208S  
Certificate Issued Date : 26-Nov-2020 04:50 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil017 QAISERBAGH/ UP-LKN  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0121696719344880S  
Purchased by : ANURADHA SHUKLA  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : PLOT NO. D-265 AND D-266, PART OF KHASRA NO. 218, AND 219, VILL-TERRA KHAS, TEHSIL AND DISTT-LUCKNOW.  
Consideration Price (Rs.) : 36,30,000  
(Thirty Six Lakh Thirty Thousand only)  
First Party : ARSHA INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED  
Second Party : ANURADHA SHUKLA  
Stamp Duty Paid By : ANURADHA SHUKLA  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,45,000  
(Two Lakh Forty Five Thousand only)

35897



Please write or type below this line



For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla  
Anuradha Shukla

LB 0011523905

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App or Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it Invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शुभ किया 234



विक्रय मूल्य ::	रु0 36,30,000/-
मालियत ::	रु0 17,99,256/-
स्टाम्प ::	रु0 2,45,000/-
परगना ::	लखनऊ

### विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना/वार्ड : लखनऊ
3. मोहल्ला/ग्राम : तेराखास, माधवग्रीन्स  
विस्तार  
(वी कोड नं0-1206)
4. सम्पत्ति का विवरण : भूखण्ड सं0-डी-265 व  
डी-266 खसरा सं0-218 व  
219 का मि0
5. मापन की इकाई : वर्ग मीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 224.907 वर्गमीटर
7. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय भूखण्ड
8. सड़क की स्थिति : मुख्य मार्ग फैजाबाद रोड व  
निजामपुर मल्हौर लौलाई  
मार्ग से 500 मीटर से  
अधिक दूर।
9. अन्य विवरण : भूखण्ड 9 मीटर चौड़े मार्ग  
व कार्नर पर स्थित नहीं है।
10. प्रतिफल की धनराशि : रु0 36,30,000/-

### -:चौहद्दी भूखण्ड विक्रीशुदा:-


पूरब :-	7.50 मीटर चौड़ी रोड
पश्चिम :-	भूखण्ड सं0-डी-246 व डी-245 व डी-244
उत्तर :-	भूखण्ड सं0-डी-264
दक्षिण :-	भूखण्ड सं0-डी-267

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anumalla Shukla  
Anumalla Shukla

नकल सं0.....  
पठन किया.....  
श्रवण किया.....  
13234





विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण-

आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट आई0डी0 नं0-  
U45400UP2009 PTC038233-2009-2010 कार्यालय स्थित-  
2/169, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री मथुरेश  
श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रमा शंकर श्रीवास्तव द्वारा तस्दीकशुदा मुख्तार वीरेन्द्र  
कुमार यादव पुत्र श्री रामनिवास।

पैन नं0-AAHCA9967C

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

श्रीमती अनुराधा शुक्ला पत्नी श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी निवासिनी- म0नं0-319,  
सिविल लाइन्स, जज कालोनी के सामने डी0एम0 आवास के पास, उन्नाव,  
उ0प्र0, हाल पता-सी-4, जज कम्पाउन्ड, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।

PAN-FSIPS7840M

विक्रय-विलेख


यह विक्रय-विलेख आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट  
आई0डी0 नं0-U45400UP2009 PTC038233-2009-2010  
कार्यालय स्थित-2/169, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा  
डायरेक्टर श्री मथुरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रमा शंकर श्रीवास्तव द्वारा  
तस्दीकशुदा मुख्तार वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री रामनिवास उक्त  
तस्दीकशुदा मुख्तारनामा दिनांक-27.08.2014 को बही सं0-6, जिल्द  
सं0-9, पृष्ठ सं0-177/182, क्रमांक-59 पर कार्यालय उपनिबन्धक, द्वितीय  
लखनऊ में पंजीकृत है जो आज तक विधिमान्य है निरस्त नहीं की गयी है।  
(जिन्हे एतद्द्वारा विक्रेता कहा गया है और तात्पर्य जिसमें जब तक कि कोई  
बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो उक्त विक्रेता, उसके विधिक प्रतिनिधि,  
निष्पादक एवं प्रशासक से है, सम्मिलित है)

Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla  
Anuradha Shukla

नकल सं0  
पठन किया  
अवण किया



श्रीमती अनुराधा शुक्ला पत्नी श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी निवासिनी-म0नं0-319, सिविल लाइन्स, जज कालोनी के सामने डी0एम0 आवास के पास, उन्नाव, उ0प्र0, हाल पता-सी-4, जज कम्पाउण्ड, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ (जिन्हे एतद्द्वारा क्रेता कहा गया है और तात्पर्य जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो उक्त क्रेता, उसके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक एवं प्रशासक से है, सम्मिलित है)

जोकि विक्रेता द्वारा खसरा सं0-218 व 219, स्थित-ग्राम-तेराखास, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ की भूमि को निम्नलिखित विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया है:-

- अ. राम शरन उर्फ राम शरण पुत्र श्री ईश्वरदीन द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक-21.10.2020 को बही सं0-1, जिल्द सं0-24111, पृष्ठ सं0-169 से 188, क्रमांक-11460 पर उपनिबन्धक द्वितीय लखनऊ के कार्यालय मे पंजीकृत है।
- ब. सर्वेश कुमारी पत्नी स्व0 सन्त राम द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक-28.10.2020 को बही सं0-1, जिल्द सं0-24167, पृष्ठ सं0-75 से 92, क्रमांक-12252 पर उपनिबन्धक द्वितीय लखनऊ के कार्यालय मे पंजीकृत है।

जोकि उक्त खसरा की भूमि को क्रय करने के उपरान्त उसका भू-उपयोग, धारा 80 ज0वि एवं भू0व्य0अधि0 के तहत कृषिक से अकृषिक में परिवर्तित कराकर कई भूखण्डों में विभाजित किया गया है जो कि वर्तमान में माधवग्रीन्स विस्तार के नाम से जाना जाता है।

जोकि इस प्रकार विक्रेता उक्त खसरा में विकसित भूखण्ड सं0-डी-265 व डी-266 खसरा सं0-218 व 219, का मालिक कामिल व काबिज है व उसे उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.  
Authorised Signatory

Anuraadha Shukla  
Anuraadha Shukla

नकल कि  
परिष्कार किया  
पठन किया  
श्रवण किया 2234



अब विक्रेता व क्रेता निम्न शर्तों के लिये पाबन्द होते हैं:-


1. यह कि विक्रेता ने उपरोक्त भूखण्ड सं०-डी-265 व डी-266, रकबा 2420 वर्गफिट अर्थात् 224.907 वर्गमीटर, खसरा सं०-218 व 219, स्थित- ग्राम-माधवग्रीन्स विस्तार राजस्व ग्राम- तेराखास, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ (जिसका विस्तृत विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है) को मुबलिग रु० 36,30,000/- (रु० छत्तीस लाख तीस हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रु० 18,15,000/- (अट्ठारह लाख पन्द्रह हजार रूपया मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता को, बय कतई किया यानी बेच दिया।
2. यह कि विक्रेता ने भूखण्ड का कुल विक्रय मूल्य अन्त में लिखे अनुसार, क्रेता से वसूल पाकर कब्जा कतई व दखल मालिकाना आज की तारीख से विक्रीशुदा भूखण्ड, रकबा उपरोक्त (जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है) पर क्रेता का बखूबी करा दिया।
3. यह कि अब विक्रेता का कोई भी दावा व हक बाबत विक्रीशुदा भूखण्ड व रकबा उपरोक्त एवं विक्रय धनराशि से शेष नहीं रहा।
4. यह कि यदि उक्त भूखण्ड के विक्रय उपरान्त अगर कोई शरक्स दावा करे तो वह नाजायज़ होगा और किसी की दावेदारी, हकदारी, उज्जदारी से बिक्रीशुदा भूखण्ड का कुल भाग का कब्जा अथवा आंशिक भाग का कब्जा क्रेता के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये अथवा कहीं विक्रय, बंधक दान आदि पाया जाये तो ऐसी दशा में क्रेता को हक व अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय-मूल्य विक्रेता से वसूल कर लें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि विक्रीत भूखण्ड (जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है) कहीं किसी तौर से बय, बंधक, हिबा व जमानत वगैरह नहीं है और उक्त भूखण्ड को हस्तांतरित करने से विक्रेता को रोका नहीं गया है।
6. यह कि विक्रीत भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम प्राधिकारी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है व उक्त भूखण्ड किसी भी न्यायालय द्वारा पारित डिग्री व अन्य किसी प्रकार के विवादों

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuraagha Shukla  
Anuraagha Shukla

पंजीकृत  
पठने के लिये  
भरण किया




से पूर्ण मुक्त है अतः विक्रेता को उक्त भूखण्ड का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है।

7. यह कि भूखण्ड विक्रीशुदा के कुल सरकारी देय वगैरह आज की तारीख तक विक्रेता द्वारा अदा किये जा चुके हैं। आज की तारीख के पश्चात क्रेता को अधिकार होगा कि वह भूखण्ड विक्रीशुदा के समस्त देय वगैरह अदा करे। इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. यह कि विक्रेता, क्रेता से प्रसविदा करता है कि विक्रीशुदा भूखण्ड को पूर्ण स्वामी के रूप में, बिना किसी शर्त के हस्तक्षेप या रुकावट के उपयोग व उपभोग व हस्तान्तरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
9. यह कि क्रेता, विक्रीत भूखण्ड पर ही निर्माण करेगा और किसी प्रकार का अतिक्रमण, भूखण्ड की सीमा के बाहर नहीं करेगा तथा क्रेता सोकपिट-टैन्क का निर्माण भी सीमा के अन्दर ही करेगा। भूखण्ड की सीमा के बाहर किया गया किसी भी प्रकार का निर्माण जैसे कि रैम्प इत्यादि का अनाधिकृत/अवैध होगा।
10. यह कि इस विक्रय-विलेख की समस्त नियम व शर्तें, क्रेता के अन्तर्गामी तथा समय-समय पर जब भी भूखण्ड का अन्तरण होने पर सभी अन्तर्गामी पर यथावत् लागू होंगी तथा वे भी इन नियम व शर्तों से पाबन्द होंगे।
11. यह कि भूखण्ड विक्रीशुदा के रख रखाव हेतु माधव ग्रीन रेजिडेन्ट्स वेल्फेयर सोसाइटी स्थापित है जिसका कि क्रेता को सदस्य बनना होगा एवं क्रय किये गये भूखण्ड के रख रखाव के लिए अनुपातिक भुगतान एक वर्ष का रजिस्ट्री के समय अग्रिम रूप से उक्त सोसाइटी को देना होगा।
12. यह कि विक्रीत भूखण्ड का उपयोग पूर्ण रूप से आवासीय है और जिसे की क्रेता द्वारा किसी प्रकार से उसे व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
13. यह कि उपरोक्त विक्रीतशुदा भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है और न ही कोई चहार दीवार निर्मित है।
14. यह कि विक्रय किये जा रहे भूखण्ड का क्षेत्रफल 224.907 वर्ग मीटर है श्रीमान् जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित सर्किल रेट रु0 8,000/- प्रति वर्गमीटर की दर से भूखण्ड बयशुदा की कुल मालियत

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla  
नकल सं.  
पठन दि.  
भवद दि. 3234





रु0 17,99,256/- होती है। विदित हो कि विक्रय मूल्य, मालियत से अधिक है इसलिए विक्रय मूल्य पर स्टाम्प देय है तथा क्रेता महिला है, इसलिए अधिसूचना आदेश सं0स0वि0क0नि0 -5- 2756/11-2008-500 (165)/ 2007, दिनांक 30/6/2008 के अनुसार शासन द्वारा छूट प्राप्त है। इसलिए मुबलिंग रूपया 10,00,000/- पर 6 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क, व शेष विक्रय मूल्य पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क, इस प्रकार कुल स्टाम्प 2,45,000/- रुपये का स्टाम्प क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है।

विवरण बिक्रीशुदा सम्पत्ति

भूखण्ड सं0-डी-265 व डी-266 रकबा 2420 वर्गफिट अर्थात 224.907 वर्गमीटर, खसरा सं0-218 व 219, स्थित- ग्राम- माधवग्रीन्स विस्तार राजस्व ग्राम-तेराखास, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्नवत् प्रदर्शित है:-

-:चौहद्दी भूखण्ड विक्रीशुदा:-


पूरब :- 7.50 मीटर चौड़ी रोड  
पश्चिम :- भूखण्ड सं0-डी-246 व डी-245 व डी-244  
उत्तर :- भूखण्ड सं0-डी-264  
दक्षिण :- भूखण्ड सं0-डी-267

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla  
Anuradha Shukla

नकल सं0  
पत्र सं0 18234  
श्रवण किया



विक्रय मूल्य प्राप्ति का विवरण

1. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग रू0 27,22,000/- बजरिये चेक सं0-251982, दिनांक-26.11.2020, एच0डी0एफ0 सी0 बैंक लि0, जारी द्वारा एल0आई0सी0 हाउसिंग फाइनेन्स लि0, लखनऊ द्वारा प्राप्त किया।
2. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग रू0 1,00,000/- बजरिये चेक सं0-003631, दिनांक-23.10.2020, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त किया।
3. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग रू0 8,07,500/- बजरिये चेक सं0-003645, दिनांक-26.11.2020, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त किया।
4. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग रू0 500/- बजरिये चेक सं0-003647, दिनांक-30.11.2020, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त किया।



यह कि यदि विक्रय विलेख मे वर्णित विक्रय प्रतिफल की धनराशि का चेक/ड्राफ्ट अनादृत हो जाता है तो यह विक्रय विलेख शून्य होगा।




इस विक्रय-विलेख का मसविदा विक्रेता व क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है, और इसके अतिरिक्त विक्रेता व क्रेता ने कोई तथ्य छिपाया नहीं है जिसे कि विक्रेता व क्रेता ने स्वयं पढ़ लिया है और जिसको कि दोनों ने भलीभांति समय लिया है परन्तु यदि विक्रय-विलेख के कोई भी तथ्य किसी भी समय मिथ्या पाये जाते है, तो ऐसी स्थिति में मसविदाकर्ता एवं टंकणकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः प्रमाण के तौर पर खूब सोच व समझकर, दुरुस्त होशो हवास में बिना किसी जोर दबाव के, प्रसन्न चित्त, मानसिक संतुलन की स्वस्थ

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

आवेदन सं०: 202000821061581

विक्रय पत्र

वही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 14388

वर्ष: 2020

प्रतिफल- 3630000 स्टाम्प शुल्क- 245000 बाजारी मूल्य- 1800000 पंजीकरण शुल्क - 36300 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 36360

श्रीमती अनुराधा शुक्ला,  
पत्नी श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: सिविल लाइन्स उन्नाव

Anuradha Shukla



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 01/12/2020 एवं 02:47:53 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Salaw*

कंचन मिश्रा -  
उप निबंधक :सदर द्वितीय  
लखनऊ  
01/12/2020

श्रीमती रूपम श्रीवास्तव -  
निबंधक लिपिक

प्रिंट करे



आवेदन सं०: 202000821061581

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 14388

वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्रा०लि० द० डाय० मथुरेश श्रीवास्तव  
के द्वारा वीरेन्द्र कुमार यादव, पुत्र श्री रामनिवास

निवासी: गोमती नगर लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1



श्रीमती अनुराधा शुक्ला, पत्नी श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी

निवासी: सिविल लाइन्स उन्नाव

व्यवसाय: नौकरी


ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी, पुत्र श्री आनन्द शंकर त्रिवेदी

निवासी: सिविल लाइन्स उन्नाव

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री रिकेश यादव, पुत्र श्री स्व० सियाराम यादव

निवासी: कबीरपुर गोसाईगंज लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुलि नियमनुसार  
लिए गए है।  
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कंपन: मिश्र:  
उप निबंधक: सर्व द्वितीय  
लखनऊश्रीमती रूपम श्रीवास्तव -  
निबंधक सिपिक

प्रिंट करे

अवस्था में यह विक्रय-विलेख पढ़कर व समझकर निम्न गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता-क्रेता ने अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये, ताकि सनद रहे व प्रमाण स्वरूप काम आवे।

लखनऊ

दिनांक :-28.11.2020

गवाहान :-

1.

हस्ताक्षर

अमरेन्द्र त्रिवेदी

पुत्र-श्री आनंद शंकर त्रिवेदी

नि0-319, सिविल लाइन,

उन्नाव, उ0प्र0-209801

ह0 विक्रेता/प्रथम पक्ष  
For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

2.

हस्ताक्षर

रिंकेश यादव

पुत्र-स्व0 सियाराम यादव

पता-कबीरपुर गोसाईगंज, लखनऊ।

ह0 क्रेता/द्वितीय पक्ष

Anuradha Shukla

Anuradha Shukla

टाईपकर्ता :-

(शिव)

प्रारूपकर्ता :-

mohend

(महेन्द्र मोहन मिश्रा)

एडवोकेट

कृष्णा टावर, चेम्बर नं0-4 व 5

मो0नं0-9559985554


मकल स0  
पद 1-8 234  
श्रावण किया

Map

भूखण्ड सं०-डी-265 व डी-266 रकबा 2420 वर्गफिट अर्थात 224.907 वर्गमीटर, खसरा सं०-218 व 219, स्थित- ग्राम- माधवग्रिन्स विस्तार राजस्व ग्राम-तेराखास, परगना, तहसील व जिला- बखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्नवत् प्रदर्शित है:-

-:चौहद्दी भूखण्ड विक्रीशुदा:-

पूरब :- 7.50 मीटर चौड़ी रोड  
पश्चिम :- भूखण्ड सं०-डी-246 व  
डी-245 व डी-244  
उत्तर :- भूखण्ड सं०-डी-264  
दक्षिण :- भूखण्ड सं०-डी-267



For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

ह० विक्रेता

Anuradha Shukla

Anuradha Shukla

ह० क्रेता

पठन किया \_\_\_\_\_ पकल सं० \_\_\_\_\_  
परीक्षण किया \_\_\_\_\_ पठन दिना \_\_\_\_\_  
श्रवण किया \_\_\_\_\_ 13234

आवेदन सं०: 202000821061581

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 24319 के पृष्ठ 225 से 244 तक क्रमांक  
14388 पर दिनांक 01/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



कंचन मिश्रा -  
उप निबंधक : सदर द्वितीय  
लखनऊ  
01/12/2020

प्रिंट करें

